



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]
No. 80]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 21, 2008/फाल्गुन 2, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2008/PHALGUNA 2, 1929

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 102(अ).—वास्तुकला अधिनियम, 1972 (1972 का-20) के खण्ड 15 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार वास्तुकला परिषद् से परामर्श करके यह निदेश देती है कि प्राइडनिप्रोवस्का स्टेट अकादमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एण्ड आर्कटेक्चर, डिप्रोपेट्रोवस्क, यूक्रेन द्वारा वास्तुकला (6 वर्षीय कार्यक्रम) में प्रदान किया जा रहा डिप्लोमा/डिग्री इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्य योग्यता है और यह तत्कालीन शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय के भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 21 फरवरी, 1973 को प्रकाशित सं. सा.का.नि. 68(अ) नामक अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन करती है :-

उपर्युक्त अधिसूचना में 'यूक्रेन' शीर्षक के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँ :-

"7ए(1) ओडेसा स्टेट अकादमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एण्ड आर्कटेक्चर, ओडेसा, यूक्रेन द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा/मास्टर ऑफ साइंस इन आर्कटेक्चर ।

(2) प्राइडनिप्रोवस्का स्टेट अकादमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एण्ड आर्कटेक्चर, डिप्रोपेट्रोवस्क, यूक्रेन द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा/मास्टर इन आर्कटेक्चर ।

[सं. एफ. 4-8/2005-टी.एस. VI]

हरविन्दर सिंह, उप-सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2008

G.S.R. 102(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Central Government, after consultation with the Council of Architecture, hereby directs that the Diploma/Master in Architecture (six year programme) awarded by the Prydniprov'ska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk, Ukraine shall be recognized qualification for the purpose of this Act, and it makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Education and Social Welfare, number G.S.R. 68(E), dated the 21st February, 1973 published in Part II, Section 3, sub-section (i) of Gazette of India, Extraordinary dated the 21st February, 1973, namely :—

In the said notification, under the heading 'UKRAINE', for the entry, the following entries shall be substituted, namely :—

"7A. (1) Diploma/Master of Science in Architecture awarded by Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa, Ukraine.

(2) Diploma/Master in Architecture awarded by Prydniprov'ska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk, Ukraine."

[No. F. 4-8/2005-TS. VI]

HARVINDER SINGH, Dy. Secy.